



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 11, 2004/फाल्गुन 21, 1925

No. 63]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2004/PHALGUNA 21, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2004

जांच शुरूआत (मध्यावधि समीक्षा)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग एवं चीनी ताइपेई मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम परमेगनेट पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करना।

सं. 15/2/2004-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग एवं चीनी ताइपेई (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम परमेगनेट (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध माल कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्रारंभिक जांच परिणाम 30 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 46/1/2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध माल पर अनंतिम शुल्क 12.3.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 29/2001-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 8 सितम्बर, 2001 को अंतिम जांच परिणाम प्रकाशित किए और दिनांक 1.11.2001 की अधिसूचना सं० 113/2001 के अनुसार निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था जिसमें दिनांक 27.5.2003 की अधिसूचना सं. 85/2003-सीमाशुल्क द्वारा संशोधन किया गया था।

2. जांच शुरूआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निरंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और प्रत्येक से प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार को संस्तुत इस प्रकार के शुल्क के सतत् अधिरोपण को समाप्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध माल के एक निर्यातक अर्थात् मैसर्स ग्रुपस्टार्स कैमिकल (यूनान) चीन एलएलसी, चीन जनवादी गणराज्य जो यूनान प्रोविन्स जियांग्शुई काउन्टी कैमिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री, चीन पीआर ग्रुप स्टार्स कैमिकल एलएलसी, यूएसए और बीजिंग झोंगुई यूयान टोंग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन सेंटर, बीजिंग के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने हेतु प्राधिकारी से सम्पर्क किया है।

उपर्युक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक सूचना के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना निर्यातकों द्वारा प्राधिकारी के ध्यान में लायी गयी परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर उचित होगा।

3. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद पोटेशियम परमेगनेट है जो अकार्बनिक रसायन है। पोटेशियम परमेगनेट गहरा गुलाबी क्रिस्टलिन सामग्री है। यह मैंगनीज, पोटेशियम और आक्सीजन का मिश्रण है। यह उत्पाद गंधरहित और जल में घुलनशील है। पोटेशियम परमेगनेट का रासायनिक सूत्र के एमएनओ-4 है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप शीर्ष-2841.61 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

8 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. 46/1/2000-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 27.5.2003 की अधिसूचना सं. 85/2003-सीमाशुल्क द्वारा यथा संशोधित दिनांक 1.11.2001 की अधिसूचना सं. 113/2001-सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात्, प्राधिकारी एतद्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को सतत् अधिरोपण की जरूरत की समीक्षा करने हेतु जांच की शुरूआत करते हैं। प्राधिकारी इस तथ्य की जांच करेंगे कि क्या पाटन की क्षति-पूर्ति करने के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना होगा अथवा क्या शुल्क को समाप्त करने, उसमें घट-बढ़ करने अथवा दोनों स्थितियों में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. इस समीक्षा में 8 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. 46/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

6. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1.1.2003 से 31.12.2003 तक है।

7. **सूचना प्रस्तुत करना**

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने हेतु पृथक् रूप से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग,

उद्योग भवन,

नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

8. **समय-सीमा**

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।

9. **सरकारी फाइल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो, प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

[सं. 15/2/2004-डीजीएडी]

अभिजीत सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2004

Initiation**(Mid-term Review)**

Subject : Initiation of Mid-term Review of the definitive anti-dumping duty imposed on Potassium Permanganate originating in or exported from China P.R., Hong Kong and Chinese Taipei.

No. 15/2/2004-DGAD.— The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of Potassium Permanganate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China P.R., Hong Kong and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries). The preliminary findings were published vide Notification no. 46/1/2000 dated 30th December 2000 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 29/2001-Customs dated 12.03.2001. The Designated Authority came out with the final findings on 8th Sept 2001 and definitive antidumping duty was imposed by Customs vide Notification No: 113/2001 dated 01.11.2001 as amended by Notification No: 85/2003-Customs dated 27.05.2003.

2. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Rules made there under require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal.

One of the exporters of the subject goods from China PR i.e. M/s Groupstars Chemical (Yunan) China LLC, China PR, a joint venture between Yunan Province Jianshui County Chemical Industry Factory, China PR' Groupstars Chemical LLC, USA and Beijing Zhonghui Yuantong Investment consultation Centre, Beijing has approached the authority for review of the antidumping duties levied on the subject goods on the grounds of changed circumstances.

On the basis of positive information submitted by the above mentioned applicant the Designated Authority considers that mid-term review of the Anti Dumping Duty in force would be appropriate in view of the changed circumstances brought to the notice to the authority by the exporter.

3. Product Under Consideration

The product under consideration in the present review investigation is Potassium Permanganate, which is an inorganic chemical. Potassium Permanganate is a dark purple crystalline material. It is a compound of manganese, potassium and oxygen. The product is odourless and soluble in water. The chemical formula of Potassium Permanganate is $KMnO_4$. The product is classified under custom sub-heading 2841.61 of the Custom Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

4. Procedure

Having decided to review the final findings notified vide Notification No: 46/1/2000-DGAD dated 8th Sept, 2001 and definitive duty imposed by Notification No 113/2001-Cus. dated 01.11.2001 as amended vide Notification No. 85/2003-Customs dated 27.05.2003, the Authority hereby initiates investigations in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 to review the need for continued imposition of the antidumping duty. The authority will examine whether the continued imposition of the duties necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

5. The review will cover all aspects of Notification No. 46/1/2000-DGAD dated 8th Sept 2001.

6. The period of investigation for the purpose of the present review is 01.01.2003 to 31.12.2003.

7. Submission of Information:

The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit:

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

[No. 15/2/2004-DGAD]

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority